

SPACEVISION IMPEX PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Office of the Liquidator: E-504, Ispatika Apartments, Plot-29, Sector-4, Dwarka, New Delhi -110078

E-mail : liq.spacevision@gmail.com Tel No./ Mobile. No.: 9995678610.**NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF ASSETS UNDER IBC, 2016**Date and time of E-Auction : Thursday, 24.04.2025 from 11.30 a.m. to 1.30 p.m.
(with unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of assets owned by Spacevision Impex Private Limited (In Liquidation), forming part of Liquidation Estate under section 35(f) of IBC, 2016 read with regulation 32 & 33 of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016, on “AS IS WHEREAS IS”, “AS IS WHAT IS BASIS”, “AS IS WHERE IS BASIS”, “WHATEVER THERE IS BASIS” AND “WITHOUT RECOURSE BASIS”.

Basic description of Assets :

Type of Asset	Location / Address / Area	Reserve Price (INR)	EMD (INR)	Incremental Value (INR)
Shop/ Office	Shop/office premises bearing Municipal Sub.No.:84/47 F4, situated on 5 th Floor, Property No. 84 (Old No. 12), Jaya Chamarajendra Road, Bangalore, having super built-up area of 1293 sq. fts. and undivided share of 196.21 sq. fts of 8250 sq. fts. and bounded by: North : B.H.K. Sheriff Land South : Shakoor Brother’s Building East : J. C. Road West : Corporation Road	Rs. 68,85,000/- (Rupees Sixty Eight lakh eighty five thousand only)	Rs. 6,88,500/- (Rupees Six Lakh Eighty Eight thousand Five hundred only) (10% of Reserve Price)	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only)
Last Submission of Bid Documents		Wednesday, 09-04-2025 till 06:00 PM		
Period for Site Visit / Inspection		From Monday, 14-04-2025 to Saturday, 19-04-2025		
Last Date for Deposit of EMD		Monday, 21-04-2025 till 06:00 PM		
Declaration of Highest Bidder		Friday, 25-04-2025		
Due Diligence and verification of Eligibility of Highest Bidder		Monday, 28-04-2025		
Declaration of Successful Bidder and Issuance of Letter of Intent or Rejection of Bid		Within 2 days of Consultation with Stakeholders’ Consultation Committee (SCC)		
Payment of balance sale consideration by Successful Bidder		(a) Within 30 days from the date of issuance of Letter of Intent (LOI). (b) Payment after 30 days but within 90 days shall attract interest at the rate of 12%. (c) Pursuant to Regulation 31A(1)(h) of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016, there will be no extension in period for payment of balance sale consideration beyond 90 days from the date of issuance of LOI.		

Note:

- Prospective Bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under Section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited and “Letter of Intent” and “Sale Certificate” issued by the Liquidator shall stand cancelled.
- If the highest bidder is found ineligible, the Liquidator may, in consultation with the SCC, declare the next highest bidder as the Successful Bidder after following the prescribed process.
- The terms and conditions of E-Auction and details of assets of Corporate Debtor are mentioned in the ‘E-Auction Process Memorandum’ uploaded at the website i.e. <https://ibbi.ebkay.in/eauction-ibbi/home> or can request for sending the same through email at liq.spacevision@gmail.com Tel No./ Mobile. No.: 9995678610. E-Auction shall be conducted by PSB Alliance – ebkay.in. For any further clarification / information / technical issue relating to submitting bid during E-Auction, interested Bidder may contact support team at support.ebkay@psballiance.com +91 8291220220 or Mr. Animesh +91 9327493420

Sd/-

Rakesh Prasad Khandelwal,
Liquidator of Spacevision Impex Pvt. Ltd. (In Liquidation)
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00639/2018-19/11950
AFA Valid upto : 31.12.2025

Place : New Delhi; Date: 25.03.2025

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. **SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY**
 Home Loans Regd. Office: Plot-15, 6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002

Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the Rules").
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Co-Borrower(s) and Guarantor(s) or their legal heirs or representatives that the below described immovable property(ies) mortgaged/charged to India Shelter Finance Corporation Limited (hereinafter referred to as the Secured Creditor), the possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Secured Creditor having its Registered Office at 6th Floor, Plot No. 15, Institutional Area, Sector 44 Gurugram Haryana - 122002, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on the dates mentioned below for realization of the amount due to the Secured Creditor from the borrowers, co-borrowers and guarantors. The sale will be done by the Authorized Officer at the place mentioned below.

Loan Account Number/AP Number And Name of Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice us (13(2) Date & Amount	Date and Type of Possession	Reserve Price	Date and Time of Inspection of the property
AP-10058797/ LABUCLLON00005031725 MRS. Syam Bai (Borrower) MR. Bahadur Singh (Co-borrower) MR. Chetan (Co-borrower) MR. Sohan Singh (Co-borrower)	Date: 19-Aug-2023 Rs. 4,25,963/- Bid Increase Amount 100000/-	28-Mar-2024 Physical Possession TOTAL OUTSTANDING Rs. 5,34,440/- (Rupees Five Lakh Seventeen thousand Three hundred eighty six only)	Rs. 2,23,100/- (Rupees Two Lakh Twenty Three Thousand One Hundred Only)- Earliest Money Deposit (EMD) Rs. 22,310/- (Rupees Twenty Two Thousand Three Hundred Ten)	05-04-2025 (Inspection Time 10:00 AM to 05:00 PM) EMD Deposition Last Date: 08-04-2025 Date & Time of Auction: 09-04-2025 (Auction Time 10:00 AM to 5:00 PM)

Description Of The Immovable Property Secured Asset : All Piece And Parcel of PATTANO. 9159, situated at sathoor gram panchayat sathoor Dist Bundi, Rajasthan, Admeasuring Area 1040 Sq. Ft. BOUNDARY:-East-Ram Singh, West-House Of Hari Singh, North-Self Land, South-Aam Rasta

Place of EMD Deposition/Place of Auction: 1st Floor, Panjwani Complex, Opp. Multipurpose School, Gumanpur, Kota, Rajasthan - 324007 **Mode Of Payment :-** All payment shall be made by demand draft/DGS/NEFT in favour of India Shelter Finance Corporation Limited.

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the Secured Creditor's website www.indiashtelter.in or contact Authorized Officer-Mr. Vinay Rana (798860530)
 Date: 25.03.2025 Place: RAJASTHAN For India Shelter Finance Corporation Ltd

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

FINANCIAL EXPRESS
 Road to Lead

SPACEVISION IMPEX PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)
 Office of the Liquidator: E-504, Ispatika Apartments, Plot-29, Sector-4, Dwarka, New Delhi -110078
 E-mail: liq.spacevision@gmail.com | Tel No./ Mobile. No.: 995678610.
NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF ASSETS UNDER IBC, 2016
 Date and time of E-Auction: Thursday, 24.04.2025 from 11.30 a.m. to 1.30 p.m. (with unlimited extension of 5 minutes each)

InCred Financial Services Limited
 Registered office at: - Unit No. 1203, 12th floor, B Wing, The Capital, Plot No. C - 70, G Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051.

DEMAND NOTICE FOR PAYING THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT
 In connection with above, notice is hereby given once again to all the Borrower's/Co-borrower's to pay forthwith from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s) amount due as on 21.03.2025 are as under:-

Loan Agreement No(s) / Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Total Outstanding amount due as on 21.03.2025 payable by the Borrowers and Co Borrowers to InCred Financial Services Limited
LNDEL22224-257120989 1. INTALIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 2. MR. SANDEEP KUMAR DAFTUAR 3. MRS. SHALINI DAFTUAR	Total Outstanding amount as on 07.01.2025 is INR 17,92,957.18/- (Rupees Seventeen Lakhs Ninety Two Thousand Nine Hundred and Fifty Seven and Eighteen Paise Only) payable by the Borrowers and Co-Borrowers to InCred Financial Services Limited.

Registered Addresses of the Borrowers and Co-Borrowers: 1. Intalia Technologies Private Limited Having Its Residence at Plot No. 76, Swadhin Marg, Hawa Sadak, 22 Godown, Jaipur, Rajasthan, 302006.
 2. Mr. Sandeep Kumar Daftuar Having Its Residence at Flat No-801 Tower-19 Paras Tierera, Sector-137, Noida, Nsez Block A, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201305.
 3. Mrs. Shalini Daftuar Having Its Residence at Flat No-801 Tower-19 Paras Tierera, Sector-137, Noida, Nsez Block A, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201305.

If the said Borrowers fails to make payment to InCred Financial Services Limited (IFSL) as aforesaid, IFSL shall initiate appropriate legal proceedings Civil and Criminal, entirely at the risk, cost and consequences of the parties mentioned above.
 Place: GautamBuddhNagar, UP Date: 25.03.2025 Sd/- Authorised Officer For INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED

Canara Bank **RECOVERY SECTION, SOUTH DELHI REGIONAL OFFICE**
 1st Floor, DDA Building, Vardhaman Tower (Near Paras Cinema), Nehru Place, Delhi-110019
 Ph- 8851630636; rosdelrec@canarabank.com

Ref: SDRO/SARFAESI/3493/2024-25 Date: 18.03.2025

DEMAND NOTICE (Section 13(2)) TO BORROWER/ GUARANTOR/MORTGAGOR

To: 1. M/S SHARA (A PARTNERSHIP FIRM) B-6 & B-6A, EXPORT PROMOTION INDUSTRIAL PARK, GREATER NOIDA, KASNA, GAUTAM BUDDH NAGAR, UTTAR PRADESH- 201306
 2. SHRI RAJIV SIROHI (PARTNER AND GUARANTOR OF M/S SHARA) D-115, SECTOR 40, NOIDA, GAUTAM BUDDH NAGAR, UTTAR PRADESH- 201303 ALSO AT: B-6 & B-6A, EXPORT PROMOTION INDUSTRIAL PARK, GREATER NOIDA, KASNA, GAUTAM BUDDH NAGAR, UTTAR PRADESH- 201306
 3. SMT SHALINI SIROHI (PARTNER AND GUARANTOR OF M/S SHARA) D-115, SECTOR 40, NOIDA, GAUTAM BUDDH NAGAR, UTTAR PRADESH- 201303 ALSO AT: B-6 & B-6A, EXPORT PROMOTION INDUSTRIAL PARK, GREATER NOIDA, KASNA, GAUTAM BUDDH NAGAR, UTTAR PRADESH- 201306

Dear Sir/Madam,
 Sub: Notice issued under Section 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Sale of assets owned by Spacevision Impex Private Limited (in Liquidation), forming part of Liquidation Estate under section 35(f) of IBC, 2016 read with regulation 32 & 33 of IBC (Liquidation Process) Regulations, 2016, on "AS IS WHEREAS IS", "AS IS WHAT IS BASIS", "AS IS WHERE IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS".

Basic description of Assets:

Type of Asset	Location / Address / Area	Reserve Price (INR)	EMD (INR)	Incremental Value (INR)
Shop/Office	Shop/office premises bearing Municipal Sub.No.:84/47 F4, situated on 5th Floor, Property No. 84 (Old No. 12), Jaya Chamrajendra Road, Bangalore, having super built-up area of 1293 sq.fts. and undivided share of 196.21 sq.fts. of 8250 sq. fts. and bounded by: North: B.H.K. Sheriff Land, South: Shakoor Brother's Building, East: J. C. Road, West: Corporation Road	₹ 68,85,000/- (Rupees Sixty Eight lakh eighty five thousand only)	₹ 6,88,500/- (Rupees Six Lakh Eighty Eight thousand Five hundred only) (10% of Reserve Price)	₹ 50,000/- (Rupees Fifty thousand only)

Last Submission of Bid Documents: Wednesday, 09.04.2025 till 06:00 PM
 Period for Site Visit / Inspection: From Monday, 14.04.2025 to Saturday, 19.04.2025
 Last Date for Deposit of EMD: Monday, 21.04.2025 till 06:00 PM
 Declaration of Highest Bidder: Friday, 25.04.2025
 Due Diligence and verification of Eligibility of Highest Bidder: Monday, 28.04.2025
 Declaration of Successful Bidder and Issuance of Letter of Intent or Rejection of Bid: Within 2 days of Consultation with Stakeholders' Consultation Committee (SCC)
 Payment of balance sale consideration by Successful Bidder: (a) Within 30 days from the date of issuance of Letter of Intent (LOI), (b) Payment after 30 days but within 90 days shall attract interest at the rate of 12%, (c) Pursuant to Regulation 31A(1)(h) of IBC (Liquidation Process) Regulations, 2016, there will be no extension in period for payment of balance sale consideration beyond 90 days from the date of issuance of LOI.

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE
ICICI Bank Branch Office : ICICI Bank Limited Plot No.-23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice.
 Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs)	Name of Branch
1.	Noheed Ahmad/ Mohd Anas/ LBYGR00005941515	House: North Facing Nagar Palika 673/3 Ward No 2, Part Of Khosra No 709, A Residential Situated At Mohalla New Abadi Pansariyalla Village Shamli Pargana Tehsil And District Shamli Uttar Pradesh 247774/ 20 March 2025	October 21, 2023 Rs. 16,59,838/-	Shamli (Uttar Pradesh)

The above-mentioned borrower(s)/guarantor(s) is/are hereby issued a 30 day Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.
 Date: March 25, 2025, Sincerely Authorised Signatory, For ICICI Bank Ltd.

Rakesh Prasad Khandelwal
 Liquidator of Spacevision Impex Pvt. Ltd. (In Liquidation)
 IBBI Reg. No.: IBBI/PA-002/IFP-N00639/2018-19/119150
 AFA Valid upto : 31.12.2025
 Date: 25.03.2025 Place: New Delhi

SATYA Micro Housing Finance Private Ltd Regd. Office: 519, 5th Floor, DLF Prime Tower, Okhla Industrial Area, Phase - 1, New Delhi - 110020
 Corporate Office: 7th Floor, Prius Heights, Sector 125, Noida - 201303

POSSESSION NOTICE (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of SATYA MICRO Housing Finance Private Limited (hereinafter referred to as "SMHFL"), having its registered office at 519, 5th Floor, DLF Prime Tower, Okhla Industrial Area, Phase - 1, New Delhi - 110020 under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower mentioned herein below having failed to pay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub section (4) of section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the Charge of SATYA MICRO Housing Finance Private Limited (SMHFL) for an amount as mentioned herein under interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
 Corp. Office: No. 167-168, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai - 600015, Tamil Nadu, India,
 Branch Office: Office at A.K Tower, 2nd Floor, 56 Subhash Road, Dehradun 248001, Uttarakhand
 Authorized Officer: Mr. Brajesh Kumar Awasthi, Contact No.: 9918301885
 CLM: Ms. Anshika Rana, Contact No.: 8755056111;
 Email: auction@hindujahousingfinance.com

Sr. No.	Name of the Borrower(s) / Co-Borrower (s) / Loan A/c No. / Branch	Schedule of the Properties	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1.	1500091 /Branch : Noida 1 1. KIRAN DEVI 2. SOVINDER KASANA 3. CHANDRA PAL ADD1: H.No-58, Loni Road, Bhopura, Sahibabad Ghaziabad UP 201005 ADD2: Plot No.58, Khasra No.765, Radha Wali Gali, Village-Berhampur Urf Bhopura, Distt-Ghaziabad, U.P.-201005, Boundaries:- North: Rasta 15th Wide Road, South: Other Plot, East: Other Plot, West: Other Plot.	All that part and parcel of the property bearing Property Address:- Plot No.58, Khasra No.765, Radha Wali Gali, Village-Berhampur Urf Bhopura, Distt-Ghaziabad, U.P.-201005, Boundaries:- North: Rasta 15th Wide Road, South: Other Plot, East: Other Plot, West: Other Plot.	06/01/2025 & ₹ 2,91,906/-	22/03/2025
2.	1500023 /Branch : Delhi 1. SAROJ 2. PRAMOD KUMAR ADD1: Village Latifpur, Hastinapur, Meerut Uttar Pradesh India 250404 ADD2: Village Kankerhera, Pargana, Hastinapur, Tehsil Mawana, District Meerut, Uttar Pradesh, 250404	All that part and parcel of the property bearing Property Address:- Village Kankerhera, Pargana, Hastinapur, Tehsil Mawana, District Meerut, Uttar Pradesh, 250404, Boundaries:- North: 35/ Farm of Veer Singh, South: 35/ Farm of Seller, East: 76/12 ft wide Road, West: 76/ Farm of Gurmeet	06/01/2025 & ₹ 10,38,270/-	22/03/2025
3.	HL0045 /Branch : Delhi 1. HEMLATA 2. MAYA DEVI 3. DHARMANDEVI KUMAR ADD1: 366/1 Nai Basti Shiv Hari Mandir Colony Meerut Uttar Pradesh 250002 ADD2: 1248, Sangam Vihar Pushpa Bhawan S.O South Delhi ADD3: Plot No. Old No. 468, Hall No. 4940, Then No. 3177, Part of Khasra No. 1171, Shiv Hari Mandir Colony, Lalla Pur Road, Meerut, 250002, Boundaries:- North: 19'3" then House of Ramsewak, South: 23'10" then House of Subash Chand, East: 16'4" then 12 Ft Wide Road, West: 11'8" then House of Shri Rajkumar	All that part and parcel of the property bearing Property Address:- Plot No. Old no. 468, Hall no. 4940, then no. 3177, Part of Khasra no. 1171, Shiv Hari Mandir Colony, Lalla Pur Road, Meerut, 250002, Boundaries:- North: 19'3" then House of Ramsewak, South: 23'10" then House of Subash Chand, East: 16'4" then 12 Ft Wide Road, West: 11'8" then House of Shri Rajkumar	06/01/2025 & ₹ 5,01,260/-	22/03/2025
4.	HLNL1APND10000786 / Branch : Noida 1 1. SUDESH BANSAL 2. SUNIL KUMAR 3. ROOPALI HOSPITAL (Corp.) ADD1: 4/605, Bharat City, Teela Mod, Teela Sahbazpur B.O, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Pincode-201102, India ADD2: Roopali Hospital, Ghaziabad, Main Road, Chirori B.O, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Pincode-201102, India ADD3: Shop situated at Khasra No 633 MI land admeasuring 180 sq ft Pargana Loni Tehsil And Distt Ghaziabad Uttar Pradesh 201102	All that part and parcel of the property bearing Property Address:- Shop situated at Khasra No 633 MI land admeasuring 180 sq ft Pargana Loni Tehsil And Distt Ghaziabad Uttar Pradesh 201102, Boundaries:- North: Ghaziabad, Uttar Pradesh, Pincode-201102, India ADD3: Shop situated at Khasra No 633 MI land admeasuring 180 sq ft Pargana Loni Tehsil And Distt Ghaziabad Uttar Pradesh 201102	13/01/2025 & ₹ 6,01,594/-	22/03/2025
6.	HLNHFLMTJ0001262 / Branch : Mathura 1. DEEPAK KUMAR 2. MANJU DEVI ADD1: Bairangpur Urf Nai Basti , Gautam Budh Nagar Behirampur B.O, Gautam Buddha Nagar , Uttar Pradesh ,Pincode-203207, India ADD2: Residential plot admeasuring 100 sq. yards, i.e. 83.61 sq. meters, U.P. 614, Situated in Berang Pur Urf Nayi Basti, Pargana & Tehsil Dadr, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 203207, Boundaries:- East: Plot of Shimla, West: Raasta 20th, Wide, North: Plot of Other, South: Plot of Avneesh	All that part and parcel of the property bearing Property Address:- A Residential Plot admeasuring 100 sq. yards, i.e. 83.61 sq. meters, U.P. 614, Situated in Berang Pur Urf Nayi Basti, Pargana & Tehsil Dadr, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 203207, Boundaries:- East: Plot of Shimla, West: Raasta 20th, Wide, North: Plot of Other, South: Plot of Avneesh	13/01/2025 & ₹ 5,10,897/-	22/03/2025
7.	1500021 /Branch : Delhi 1. SUDESH BANSAL 2. SUNIL KUMAR ADD1: A-4/605 Bharat City Teela Mod Teela Sahbazpur B.O, Ghaziabad Uttar Pradesh India 201102 ADD2: A Shop Area Admeasuring 16.60 Sq. Meters, With Roof Rights, Khasra No -633 MI, situated in Village Chiraudi Pargana -Loni, Dist. - Ghaziabad, Uttar Pradesh, Pincode-201102, India, Boundries :-North : Shop of Narendra, East : Rupali Hospital, West : 60 Ft Wide Road, South : Rupali Hospital Passage	All that part and parcel of the property bearing Property Address:- A Shop area admeasuring 16.60 sq. meters, with roof rights - Khasra No.-633 MI, Situated in Village Chiraudi Pargana-Loni, Dist - Ghaziabad, Uttar Pradesh, Pincode-201102, India, Boundries :-North : Shop of Narendra, East : Rupali Hospital, West : 60 Ft Wide Road, South : Rupali Hospital Passage	13/01/2025 & ₹ 10,35,247/-	22/03/2025
8.	1200141 / Branch : Noida 1 1. ANEETA 2. RAJVEER KASHYAP ADD1: KH-No-098 Vill-Tusyana, Dadr, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201306 ADD2: A Residential plot area measuring 150 sq. yards i.e. 125.41 sq. meter, out of Khasra No. 98CH, situated at Mojua, Tusyana, Tehsil Dadri District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh 201306 Boundaries: East Side:- House of Likkhi Sharma, West Side: Plot Pushpa, North Side: Plot Palmu, South Side: Road 18 Feet Wide Kutcha	All that part and parcel of the property bearing Property Address:- A Residential plot area measuring 150 sq. yards i.e. 125.41 sq. meter, out of Khasra No. 98CH, situated at Mojua, Tusyana, Tehsil Dadri District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh 201306 Boundaries: East Side:- House of Likkhi Sharma, West Side: Plot Pushpa, North Side: Plot Palmu, South Side: Road 18 Feet Wide Kutcha	13/01/2025 & ₹ 4,59,238/-	22/03/2025

Place: Delhi Date: 25/03/2025 Sd/- Authorised Officer, SATYA MICRO Housing Finance Private Limited

The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Maharani Bagh Branch, Delhi having its branch at No. 4, Siddharth Enclave, Commercial Complex, Maharani Bagh, Delhi-110014 (hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, (hereinafter referred to as the "Act") do hereby issue this notice to you as under:
 That you address No. 1, 2 & 3 (hereinafter referred to as "the Borrower") had availed credit facility / facilities stated in the Schedule A hereunder and had entered into security agreement(s) securing the properties mentioned in Schedule B hereunder creating security interest, supported by various loan documents executed in favour of our secured creditor bank. In terms of the said agreement, you addresses No. 1, 2 & 3 had availed the financial assistance with an express undertaking that you shall repay the said amounts in accordance with the terms and conditions of the above said agreements.
 That you addresses No. 2 & 3, being guarantors in credit facilities extended to address no 1, had also guaranteed the payment on demand of all moneys and discharge all obligations and liabilities owing or incurred to the secured creditor bank by the Borrowers for the credit facilities as detailed in Schedule-A hereunder with interest, cost, charges and expenses. As such, you addresses No. 2 & 3 are jointly and severally liable to pay the outstanding dues/loan amount of our secured creditor bank.
 However, since December 2024, the operation and conduct of the said financial assistance / credit facilities have become irregular. The books of account maintained by the secured creditor shows that the liability of the Borrower(s) towards the secured creditor as on date amounts to Rs 2,02,71,754.75 (Rupees Two Crore Two Lakh Seventy One Thousand Seven Hundred Fifty Four and Seven Five Paise), the details of which together with future interest rate are stated in Schedule C hereunder. It is further stated that the Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to keep up with the terms of the above said agreement in clearing the dues of the secured creditor within the time given, and have been evasive in settling the dues. The operation and conduct of the above said financial assistance / credit facilities having come to a standstill and as a consequence of the default committed in repayment of principal debt/ instalment and interest thereon, the secured creditor was constrained to classify the debt as Non Performing Asset (NPA) on 17.03.2025 in accordance with the directives/guidelines relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India.
 That the books of account maintained by our secured creditor bank shows the liability of you addresses towards our secured creditor bank as on date of NPA as Rs 2,02,71,754.75 (Rupees Two Crore Two Lakh Seventy One Thousand Seven Hundred Fifty Four and Seven Five Paise), the details of which together with future interest rate are stated in Schedule C hereunder.
 Our bank as a secured creditor through this notice brings to your attention that you as Borrowers/Guarantors had failed and neglected to repay the said dues/outstanding liabilities and hence hereby demand under Section 13(2) of the Act, by issuing this notice to discharge in full the liabilities of the Borrower(s) as stated in Schedule C hereunder to the secured creditor within 60 days from the date of receipt of this notice. Further, it is brought to your notice that you are also liable to pay future interest at the applicable rates mentioned in Schedule appended monthly along with penal interest @2% p.a. simple together with all costs, charges, expenses and incidental expenses with respect to the proceedings undertaken by the secured creditor in recovering its dues.
 Please take note of the fact that if you fail to repay to our secured creditor bank, the aforesaid sum of Rs 2,02,71,754.75 (Rupees Two Crore Two Lakh Seventy One Thousand Seven Hundred Fifty Four and Seven Five Paise), together with further interest and incidental expenses and costs as stated above in terms of this notice under Section 13(2) of the Act, the secured creditor will exercise all or any of the rights detailed under sub-section (4)(a) and (b) of Section 13, the extract of which is given here below to convey the seriousness of this issue:
 13(4)- In case the Borrower/Guarantor fails to discharge liability in full within the period specified in sub-section (2), the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures to recover his secured debt, namely:
 (a) Take possession of the secured assets of the Borrower/Guarantor including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset;
 (b) Take over the management of the business of the Borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset;
 Provided that the right to transfer by way of lease, assignment or sale shall be exercised only where the substantial part of the business of the Borrower is held as security for the debt;
 Provided further that where the management of whole of the business or part of the business is severable, the secured creditor shall take over the management of such business of the borrower which is relative to the security for the debt;
 And under other applicable provisions of the said Act.
 Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
 You are also put on notice that in terms of section 13(13) the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) shall not transfer by way of sale, lease or otherwise the said secured assets detailed in Schedule B hereunder without obtaining written consent of the secured creditor. It is further brought to your notice that any contravention of this statutory injunction/ restraint, as provided under the said Act, is an offence and if for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited with the secured creditor. In this regard you shall have to render proper accounts of such realization / income.
 This notice of Demand is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which the secured creditor may have including further demands for the sums found due and payable by you.
 This is without prejudice to any other rights available to the secured creditor under the Act and/or any other law in force.
 Please comply with the demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of Non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequence.

SCHEDULE - A
 (Details of the credit facilities availed by the Borrower)

S. No	Acc No	Nature of Limit	Date of sanction	Amount
1	125005929494	MSME OD	18-05-2024	Rs 1,20,00,000.00
2	0349741002839	DPN	11-04-2018	Rs 35,00,000.00
3	0349746001057	WCFL	18-04-2020	Rs 1,00,00,000.00
4	0349766000002	MSME TL	03-02-2015	Rs 20,00,000.00
5	170002721881	GECL 1.0 EXT	09-12-2021	Rs 17,50,000.00
6	253PCRS243365001	PACKING CREDIT	01-11-2024	Rs 20,50,000.00
7	253PCRS243445003	PACKING CREDIT	09-12-2024	Rs 14,60,000.00
8	253PCRS243565001	PACKING CREDIT	21-12-2024	Rs 12,70,000.00
9	0349201832803	CURRENT ACCOUNT	-	-
TOTAL				Rs 3,40,30,000.00

SCHEDULE - B
 (Details of security assets)

S. No.	Movable	Name of Title Holder
1	Hypothecation of Stocks and Book Debts	M/s Shara
Immovable		
2	(a) Industrial Land & Building bearing no. B-6 situated within the Industrial Area at Greater Noida Export Promotion Industrial Park (GNEPIP) in village Kasna, Tehsil Sadar, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. admeasuring 5967.90 sq mtrs Boundaries: North: Plot No. B-6A South: 18 m wide road No. 15 East: Plot No. B-1 West: 30 m wide road No. 23 (b) Industrial Land & Building bearing no. B-6A situated within the Industrial Area at Greater Noida Export Promotion Industrial Park (GNEPIP) in village Kasna, Tehsil Sadar, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. admeasuring 4510.00 sq mtrs Boundaries: North: Plot No. B-5 South: Plot No. B-6 East: Plot No. B-1 West: 30 m wide road No. 23	M/s Shara through its partners Sh Rajiv Sirohi and Smt Shalini Sirohi

SCHEDULE - C
 (Details of Liability as on Date)

S. No.	LOAN NO.	NATURE OF LOAN/LIMIT	LIABILITY WITH INTEREST AS ON 18.03.2025	RATE OF INTEREST
1	125005929494	MSME OD	Rs 1,21,00,622.93	10.70% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
2	0349741002839	DPN	Rs 6,73,049.35	16.10% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
3	0349746001057	WCFL	Rs 14,48,770.47	14.10% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
4	0349766000002	MSME TL	Rs 6,73,333.78	13.60% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
5	170002721881	GECL 1.0 EXTN	Rs 11,99,506.22	9.25% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
6	253PCRS243365001	PACKING CREDIT	Rs 20,80,152.00	8.80% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
7	253PCRS243445003	PACKING CREDIT	Rs 14,94,858.00	8.80% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
8	253PCRS243565001	PACKING CREDIT	Rs 13,03,996.00	8.80% p.a. compounding monthly + 2% Penal interest at Simple Rate till the date of realisation
9	0349201832803	CURRENT ACCOUNT	Rs 97,466.00	-
TOTAL			Rs 2,02,71,754.75	

Authorized Officer, Canara Bank

स्पेसविजन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमाप्त में)

परिसमाप्त का कार्यालय ई- 504, इण्डिया का अपार्टमेंट, प्लॉट-29, सीक्टर-4, हावड़ा, नई दिल्ली- 110078
ई-मेल- ig.spacevision@gmail.com | दूरभाष नं०- 9995678610
आईबीसी 2016 के तहत परिसमाप्त को विक्री के लिए ई- नीलामी की सूचना
ई- नीलामी की तिथि और समय- बुधवार, 24.04.2025 सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक
(सबसे कम 5 मिनट के अवधिमा विस्तार के साथ)

स्पेसविजन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमाप्त में) के स्वामित्व वाली समिति की बिक्री, HDB (परिसमाप्त प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 32 और 33 के साथ पंजित HBC, 2016 की धारा 35 (f) के तहत परिसमाप्त एस्टेट का हिस्सा है जो "जेसा है वहीं है", "जो भी है", "जो भी है", "जैसा है वहीं है आधार", "जो कुछ भी है आधार" और "बिना पुनर्प्राप्ति के आधार पर" परिस्थितियों का मूल विवरण:

संपत्ति का प्रकार	स्थान / पता / क्षेत्र	आरक्षित मूल्य (INR)	ई-पूछाई मूल्य (INR)	सुविधशील मूल्य (INR)
सूचना/ कार्यालय	डी 01 मॉडल पुर स्थित नगरपालिका पुनर्/ संख्या 84/47 एफ 4 धारा 2016/ कार्यालय परिसर, संघति संख्या 84 (दुकान नं. 12), धारा धामराज रोड, बैंगलोर, जिसमें 1293 वर्ग फुट का सुपर निम्नलि क्षेत्र है और 8250 वर्ग फुट का 196.21 वर्ग फुट का अतिमात्रित हिस्सा है। उत्तर: बी.एच.डी. रोड, दक्षिण: शंकरु ब्रदर्स बिजनेस, पूर्व: जेसी रोड, पश्चिम: कौशिक रोड	₹. 68,50,000/- (अंशतः लया पचासी हजार रुपये मात्र)	₹. 8,88,500/- (उत्तर लाघ हज़ार पाच सौ रुपये मात्र)	₹. 50,000 (पंचार हज़ार रुपये मात्र)
बोली दर्तापत्रों का अंतिम प्रस्तुतीकरण	बुधवार, 09.04.2025 को शाम 06:00 बजे तक			
स्टार्ट बिजिट / निवेशकों की अन्वेषी	सोमवार, 14.04.2025 से सोनिवार, 19.04.2025 तक			
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	सोमवार, 21.04.2025 को शाम 06:00 बजे तक			
उत्तमम बोली लगाने वाले की घोषणा	सोमवार, 28.04.2025			
उत्तमम बोली लगाने वाले की प्राप्ता का उचित परिसर और संचालन	सोमवार, 28.04.2025			
उत्तमम बोली लगाने वाले की प्राप्ता का उचित परिसर और संचालन	रिस्तापत्रों की परामर्श समिति (SCC) के साथ परामर्श के 2 दिनों के भीतर			
सफल बोलीदारा द्वारा शेष बिक्री राशि का भुगतान	(क) आशय पत्र (एसओआई) जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर। (ख) 30 दिनों के बाद लेकिन 90 दिनों के भीतर भुगतान पर 12% की दर से ब्याज लगेंगे। (ग) आईबीसीआई (परिसमाप्त प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 31 ए (1) (एच) के अनुसार, एसओआई जारी करने की तिथि से 90 दिनों से अधिक कोई भी प्रातिक्रम के बुलाने वाली अवधि में कोई विस्तार नहीं होगा।			

नोट:
1. संभावित बोलीदाराओं को यह बतान देना होगा कि वे सविता की धारा 29ए के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आवश्यकता से उत्पन्न नहीं है, तथा यदि किसी भी स्तर पर अव्यय पत्र आते हैं, तो जमा की गई धनमा नवीं जमा की जाती है।
2. यदि उच्चतम बोलीदारा अव्यय पत्र आता है, तो परिसमाप्त, एसओआई के परामर्श से, निम्नलि अधिका का पत्रन करने के बाद अनुभव बोलीदारा को सफल बोलीदारा घोषित करेगा।
3. ई- नीलामी के निष्पत्ति और नती उक्त कॉम्पिट देनादर की परिस्थितियों का विवरण अव्ययद यानी 'स्पेसविजन/ई अयाय डीएस.IG.spacevision@gmail.com' के माध्यम से, टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं. 9995678610 पर मेसज का अनुभव कर सकते हैं। ई- नीलामी पोर्टल पर एकराज.ig, द्वारा अनावृत्त की जाती है। ई- नीलामी के दौरान बोली प्रस्तुत करने से संबंधित किसी भी अन्य स्पष्टीकरण / जानकारी, टंकनीकी समस्या के लिए, इच्छुक बोलीदारा support@ekraj@gmail.com +91 8291220220 या श्री अनिलम +91 9327493420 पर सहायता प्राप्त से संपर्क कर सकते हैं।

हस्ता / राकेस प्रसाद खंडेलवाल
परिसमाप्त, स्पेसविजन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमाप्त में)
आईबीसीआई/पंजी. सं. : IBSB/PA-0021P-A00639/2018-19/11950
एएफए वैश: 31.12.2025 तक

केन फिन होम्स लिमिटेड

CIN : L85110KA1987PLC089699, केनए बैंक लिमिटेड के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं. सी-3, सेक्टर-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश, विन क्र. (कॉर्पो- 20180) ई-मेल : roide@canfinhomes.com, फोन नं. 0120 - 2970164/65/67, 7625079126

वित्तीय आस्थिती का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुस्था हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरकारी पृष्ठ) की धारा 13(12) के तहत अंतिम अंतिम हित (अंतिम) निम्नवती, 2002 (निम्नवती) के नियम 3(1) के अधीन

- श्री राम कुमार शाहशंकर पुत्र मनि लाल शाहशंकर (उधारती)
पता 1— 434, गांव— विला सरोदा, मयूर विहार-1, नई दिल्ली-110091
पता 2— राम ट्रेवल, 434, विला सरोदा, मयूर विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110091
पता 3— पदवेत नंबर एस-1, दूसरी मंजिल, बिना छत के, प्लॉट पर बना हुआ
पता नं— 109,110, खसर नंबर 572, विष्णु एक्लेन्ड, इदरबस्त ग्राम— डारणा, परगना — डारणा, तहसील— गाजियाबाद, जिला— गाजियाबाद 201013
- श्रीमती राज कुमारी शाहशंकर पत्नी राम कुमार शाहशंकर (सह—उधारती)
पता 1— 434, गांव— विला सरोदा, मयूर विहार-1, नई दिल्ली-110091
पता 2— सुनिष कुट्टी पार्क, 434 विला सरोदा, मयूर विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110091
पता 3— पदवेत नंबर एस-1, दूसरी मंजिल, बिना छत के, प्लॉट पर निर्मित
पता नं— 109,110, खसर नंबर 572, विष्णु एक्लेन्ड, इदरबस्त ग्राम— डारणा, परगना — डारणा, तहसील— गाजियाबाद, जिला— गाजियाबाद 201013

गारंटर— श्री बलबीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह
पता 1— तीसरी मंजिल, मकान नंबर 1061, गांव— कोटला, मयूर विहार फेज 1, नई दिल्ली 110091
पता 2— मेसर्स बंग टूर एंड ट्रेवल, गांव— विला सरोदा, मयूर विहार फेज 1, क्वीन नई दिल्ली के पास, नई दिल्ली 110091

पता 3— सी-46, गांव— सी-13, राशि गार्डन, पदमकान, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110091
आपने श्री राम कुमार शाहशंकर के साथ हमारी शाखा से एक आवसीय ऋण लिया था, जिसके बदले में श्री राम कुमार शाहशंकर की निम्नलिखित संपत्ति को बंधक के रूप में रखा गया है।
दिनांक 19.03.2025 तक, आकां ऊपर केन फिन होम्स लिमिटेड का ₹.15,12,1071/- (पंद्रह लाख बारह हजार एक सौ इकहतर रुपए मात्र) बकाया है, जिस पर निर्धारित अनुबंधित दर से मांथिय में ब्याज देना होगा।

बंधक संपत्ति का विवरण
पदवेत नंबर एस-1, दूसरी मंजिल, बिना छत के, प्लॉट नं— 109,110, खसर नंबर 572, विष्णु एक्लेन्ड, इदरबस्त ग्राम— डारणा, परगना — डारणा, तहसील— गाजियाबाद, जिला— गाजियाबाद 201013 पर निर्मित प्लॉट नंबर 109 की सीमाएं: पूर्व प्लॉट नंबर 110 पश्चिम प्लॉट नंबर 108 उत्तर दिगर्ग मलिक मूमि दक्षिण 20 फीट चौड़ी सड़क प्लॉट नंबर 110 की सीमाएं: पूर्व प्लॉट नंबर 111 पश्चिम प्लॉट नंबर 109 उत्तर दिगर्ग मलिक मूमि दक्षिण 20 फीट चौड़ी सड़क आठको सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत मांग नोटिटर मेजा मयू था, लेकिन वह बिना संपन्न हुए अपस लोका आता। अतः अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के प्राधानों के अनुसार, उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर इन नोटिटरों को विचारकाया है, जिसके कारण वह समाचार पत्र प्रकाशन किया जा रहा है।
पूर्विक आपने स्वैकृति की वक्त का पालन करने में किरकला दिखाई है, अतः आपके खाते को दिनांक 26-02-2025 से राष्ट्रीय आवसा बैंक (एन.एच.बी.) के दिशा निर्देशों के अनुसार रिज-निष्ठादि प्रतिस्थापित (एन.पी.ए) के रूप में वगौकृत किया गया है।
आपको यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.03.2025 से उपर्युक्त राशि पर निर्धारित अनुबंधित ब्याज दर सविता 60 दिनों के भीतर इस बकाया राशि का भुगतान करे। अन्यथा, अधोहस्ताक्षरी को सरकारी अधिनियम के तहत संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही करने के लिए पत्र भेजना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता/गारंटरों का ध्यान धारा 13(6) के परामर्शों और आकांशित किया जाता है, जिसमें उन्हें संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सत्य सीमा के संबंध में जानकारी दी गई है।
हस्ता / प्राधिकृत अधिकारी केन फिन होम्स लिमिटेड

तिथि : 24-03-2025 स्थान : नोएडा

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 501, सेल्कन औप, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110025 एवं मुख्य कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नोएडा - 125, उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्राधानों के साथ पंजित वित्तीय आस्थिती के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अंतिम आस्थिती को विक्री हेतु खुली नीलामी विक्री सूचना। एदातर सामान्य रूप से जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्राप्ति नीचे वर्णित अवधि सम्पत्ति, जिस पर शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने मौलिक कथन कर लिया है, 1. श्री इस्लाम पुत्र अली मोहम्मद (कर्जदार) निवासी मकान नं. 131, कसाई वाली गली सराय मेरठ उत्तर प्रदेश 250002, 2. श्री अली मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमिद (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. 131, कसाई वाली गली सराय मेरठ उत्तर प्रदेश 250002, 3. श्री विजय खन्ना पुत्र स्वर्गीय पना लाल खन्ना (जमानती) निवासी ए97, गंगोत्री कॉलोनी रुड़की रोड मेरठ उत्तर प्रदेश 250002 4. श्री इस्लाम पुत्र अली मोहम्मद (कर्जदार) निवासी मकान नं. 131, कसाई वाली गली सराय मेरठ उत्तर प्रदेश 250002, 5. श्री अली मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमिद (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. 131, कसाई वाली गली सराय मेरठ उत्तर प्रदेश 250002, 6. श्री विजय खन्ना पुत्र स्वर्गीय पना लाल खन्ना (जमानती) निवासी ए97, गंगोत्री कॉलोनी रुड़की रोड मेरठ उत्तर प्रदेश 250002

त्रण धारा संख्या: 100841510021 100841510571

कर्जदार (रें)/जमानती (यो) के नाम	मौल्य सूचना की तिथि तथा मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)
1. श्री इस्लाम पुत्र अली मोहम्मद (कर्जदार) निवासी मकान नं. 131, कसाई वाली गली सराय मेरठ उत्तर प्रदेश 250002, 2. श्री अली मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमिद (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. 131, कसाई वाली गली सराय मेरठ उत्तर प्रदेश 250002, 3. श्री विजय खन्ना पुत्र स्वर्गीय पना लाल खन्ना (जमानती) निवासी ए97, गंगोत्री कॉलोनी रुड़की रोड मेरठ उत्तर प्रदेश 250002	28-10-2022 ₹. 13,60,000/- (रुपये तेरह लाख साठ हजार मात्र)	अचल संपत्तियों का समस्त भाग: 1. प्रौद्योगिक आवसीय प्लॉट, प्लॉट नंबर 166, जिसका क्षेत्रफल 150.23 वर्ग गज यानी 125.61 वर्ग मीटर है, खसर नंबर 3042, मोहल्ला पिलोखड़ी रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2. राबखर अतिरिक्तों में बही नंबर 1, फ्लैट नंबर 2305 फेज नंबर 103-110 सीलबंद नंबर 1727 दिनांक 03-03-2002 को श्री अली मोहम्मद पुत्र अब्दुल हमिद के नाम पर पंजीकृत है। 3. व्यावसायिक संपत्ति, दुकान नंबर 1 (दो तरफ खुली) प्लॉट नंबर 166, खसर नंबर 3042, मोहल्ला पिलोखड़ी रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 4. व्यावसायिक संपत्ति, दुकान नं. 3 (आवासीय संपत्ति के गेट से पहले) प्लॉट नं. 166 खसर नं. 3042, मोहल्ला पिलोखड़ी रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5. व्यावसायिक संपत्ति, दुकान नं. 4 (आवासीय संपत्ति के गेट के बाद) प्लॉट नं. 166, खसर नं. 3042, मोहल्ला पिलोखड़ी रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 6. व्यावसायिक संपत्ति, दुकान नं. 5 (आवासीय संपत्ति के गेट के बाद) प्लॉट नं. 166, खसर नं. 3042, मोहल्ला पिलोखड़ी रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है।	1. ₹. 1,12,40,000/- (रुपए एक करोड़ बारह लाख चालीस हजार मात्र); 2. ₹. 30,00,000/- (रुपए तीस लाख मात्र); 3. ₹. 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); 4. ₹. 15,00,000/- (रुपए पंद्रह लाख मात्र); 5. ₹. 15,00,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); 6. ₹. 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); 7. ₹. 15,00,000/- (रुपए पंद्रह लाख मात्र); 8. ₹. 15,00,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); 9. ₹. 15,00,000/- (रुपए पंद्रह लाख मात्र)	आरक्षित मूल्य का 10% ₹. 11,24,000/- (रुपए ग्यारह लाख चौबीस हजार मात्र); ₹. 3,00,000/- (रुपए तीस लाख मात्र); ₹. 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); ₹. 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); ₹. 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); ₹. 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र); ₹. 1,50,000/- (रुपए पंद्रह लाख मात्र)

अचल सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि : 07 अप्रैल, 2025, 1100 बजे से 1500 बजे

नीलामी की तिथि तथा सविदा खुलने की तिथि : 09 अप्रैल, 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे
प्रस्ताव,ज.ध.रा. जमा करने की अंतिम तिथि : 08 अप्रैल, 2025 को 5.00 बजे अपराह्न तक

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php में प्राधान्यित लिंक देखें।

- बिक्री के महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :
- सम्पत्ति को विक्री "जहाँ है जैसा है", जो कुछ भी है वहीं तथा आश्रयहित आधार" पर बिना किसी वारंटी तथा इंडेन्टिटी के की जा रही है।
 - सम्पत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के साथ उपर्युक्त तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।
 - विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तों सहित सविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित बैंक के शाखा कार्यालय से कार्यालयी अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिनस में अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक सविदाकर्ता को अपनी मूहरबन्ध सविदाएं निर्धारित सविदा प्रारूप में बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी हैं।
 - सविदा दस्तावेज लिफाफे में जिस पर नीलामी सम्पत्ति हेतु सविदा उल्लिखित करते हुए तथा इसके साथ "शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आह्वित, मेरठ/नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ज.ध.रा. (जो सविदा राशि का 10% होगा) बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर 08 अप्रैल 2025 को 5.00 बजे अप. तक जमा करनी है। जो सविदाएं नहीं होती हैं अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होती हैं उन्हें अस्वीकृत सविदा माना जाएगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया जाएगा। प्रदत्त ज.ध.रा. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सविदाकार द्वारा एक बार सविदा जमा करने के उपरान्त उसके ब्याज नहीं लिया जा सकेगा।
 - सौलभ्यता 09 अप्रैल 2025 को सुबह 10:00-12:00 बजे बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय में इस समय उपस्थित बोलीदाराओं को उपस्थिति में खोली जाएगी और उसके बाद सभी बोलीदाराओं को प्रस्तावित मूल्य बढावने के लिए परस्पर बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अस्मर दिनांक 10 अप्रैल 2025 को 5.00 बजे तक जमा करनी होगी।
 - जमा किया जाने वाला सविदा मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा सविदाकार र. 50,00,000/- के गुणक में अपने प्रस्ताव बढा सकेगा। सम्पत्ति अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बची जायेगी।
 - आरक्षित सविदाकारों को विक्रय मूल्य का 25% (ज.ध.रा. शामिल) तुर्तया या अधिकतम आगे कार्यकारी दिवस तक शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आह्वित, मेरठ/नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा और सफल सविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की शेष राशि कम्पनी द्वारा विक्रय सुनिश्चित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक सविदाकारों द्वारा प्रदत्त ज.ध.रा. तथा विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल सविदाकार विक्रय की शर्तों का अनुपालन करने में असफल होता है या कोई चुक कर ले तो ज.ध.रा. अथवा 25% की जमा, जैसा मामला हो, बैंक द्वारा जल कर ली जायेगी।
 - बैंक अस्तित्व सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्रकालन करने से किसी अनुप्रा/अनापत्त प्रमाण प्राप्त करने अथवा बकाया पानी/बिजली को देनाओं, सम्पत्ति कर, निम्न/पंचायत कर अथवा अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, जैसे अन्य बकायों के लिए कोई उतरदायित्व नहीं लेता है।
 - सफल सविदाकार किसी विकास प्राधिकरण के लिये बकायों, यदि कोई हो/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी के कर्तों/युटिलिटी बिलों तथा "विक्रय प्रमाणपत्र" के पंजीकरण हेतु स्ट्याम शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सम्पन्न व्ययों का वहन करेगा।
 - अधिकृत प्राधिकारी को कोई या सभी प्रस्ताव/सविदाएं स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए विक्रय को आरंभित करने/निरस्त करने या बिना किसी पूर्व सूचना के विक्रय को शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
 - एक बार लगाई गयी बोली को निरस्त या वापस नहीं किया जा सकता है।
 - अनुप्रे पूर्ण ज्ञान एवं सूचना के आधार पर बैंक को छोड़कर विक्रय को जा रही सम्पत्ति पर किसी प्रकार के ऋणभार को बैंक को जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की सन्तुष्टि के लिए सम्पत्ति का अपना निजी आकलन कर लेना चाहिए। बैंक उपर्युक्त सम्पत्ति को उपयुक्तता/व्यावित्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं लेता है या कोई प्रतिश्रुति नहीं करता है। किसी अन्य सूचना के लिए अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, ऋणभारिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर या सरकारी अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। एतादा विक्रय मूल्य पर कोई मांग/प्राप्य के समाचार पर जो कुलना में वरीयता दी जायेगी और उसे अंतिम प्रमाणपत्र में प्रकृतित करे बैंक अथवा कम्पनी के द्वारा प्रकृतित करे। यदि विक्रय मूल्य पर कोई मांग/प्राप्य के समाचार पर जो कुलना में वरीयता दी जायेगी और उसे अंतिम प्रमाणपत्र में प्रकृतित करे बैंक अथवा कम्पनी के द्वारा प्रकृतित करे। यदि कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता विक्रय की तिथि से पूर्व कम्पनी के सम्पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी रोके दी जायेगी। किन्तु देय मामलों में सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार पथाप्रोचय भावी ब्याज वसूल किया जायेगा तथा इस वसूली तक आकरिमिक व्यय, लाभांश आदि बकाया तथा देय होगा।
 - अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और प्रबन्धित रहित है। यह माना जायेगा कि सविदा जमा करने वाले सभी सविदाकार ने बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उसे बंधा हुआ है।

अधिक विवरण के लिए संचालित सविदाकार श्री जगदीश, संपर्क नं. 9045002318 से संपर्क कर सकते हैं।
1. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदारा, बैंक सभी कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को उनके पते पर डडरड द्वारा बिक्री नोटिटर जारी करने जा रहा है। यदि किसी भी पक्ष को यह प्राप्त नहीं हुआ है, तो बिक्री नोटिटर के इस प्रकाशन को सेवा का प्रतिश्रुतिपत्र लिंक माना जाय।
2. कर्जदार/सह-कर्जदारों/जमानती/बंधककर्ताओं को एदातर यह भी सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपनी परंतु वसूल, यदि कोई हो, जो उपर्युक्त परिसर में/बैंक के संरक्षण में है, पूर्व अनुमति लेकर निकाल लें, जिसमें असफल रहने पर इस विषय में बैंक का कोई दायित्व/उत्तरदायित्व नहीं होगा और इसे कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ताओं के जोषित्व पर निरस्तित कर दिया जायेगा और बकायों के प्रति बिक्री कार्यवाही में समावेशित कर दिया जायेगा।
3. यदि किसी भी कारण से नीलामी असफल हो जाती है तो कम्पनी सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत मैडेड प्राधान्यों के अनुसार निजी सन्धि के माध्यम से उपर्युक्त बंधक सम्पत्तियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगी।

तिथि : 24.03.2025, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

नई दिल्ली

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत कार्यालय 27-ए, विक्रमि अटॉमिक एस्टेट, मिनेमई - 600 032, पत्तियुक्त ई-मेल: auktion@hindujahousingfinance.com

कच्चा सूचना (अंतिम संपत्ति के लिए)

जवकि, नीचे हस्ताक्षरित वित्तीय आस्थिती के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुस्था हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएफ) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और सुस्था हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी के अधिकृत अधिकारी नीचे वर्णित अवधि संपत्तियों (ओं) / गारंटर(ओं) को उक्त नोटिटर की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिटर में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिटर जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/गारंटर(ओं) और अनाजता को नोटिटर दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत उक्त प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान सूचित परिस्थितियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों और आकांशित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और अनाजता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिटर के लिए सविदाण किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार एचएचएफएफ के अधीन होगा, जो कि यहाँ उल्लिखित राशि के साथ धारा के रूप में होगा।

खाता संख्या एवं उधारकर्ताओं का नाम
लेन: DL/NCU/GH/A000000312 और CO/CP/CPF/A00000149,
1. श्री दीपक दीपक 2. श्रीमती मन्दीका मन्दीकर एवं—आ 232 पुनर् कर्मा मंगोपुरी, नई दिल्ली—110083 कच्चे की तारीख: 21 मार्च—25

हिमांशु नोटिटर की तारीख 04 अक्टूबर—24 और 01 अक्टूबर—24 को 72,86,422 रुपये
संपत्ति का विवरण: प्लॉट नं— 399 द्वितीय तल गुरु हरकिशन नगर बंगला, पश्चिम विहार नई दिल्ली—110081।

लेन: DL/UTM/UT/MA0000059111, श्री जितेंद्र कुमार 2. श्रीमती सुमित्रा देवी 1469, चौथी मंजिल ब्लॉक— जीएच पीकेटी-1 सेक्टर—29 सीधिया 110042
कच्चे की तारीख: 21 मार्च—25

मांग नोटिटर की तारीख 08 जनवरी—25 और 08 जनवरी—25 तक 19,44,375 रुपये
संपत्ति का विवरण: डीएचए डब्ल्यू प्लॉट नंबर 980 सिंगी रोड के तहत चौबी मंजिल ब्लॉक जीएच—1, पीकेट—1 सेक्टर 29 पुरिया 4200 अर्ग
मीटर मासुर रोहिणी दिल्ली 110042 में स्थित

लेन: DL/OKH/OKH/A000000443 1. श्री जयलाल चंद 2. श्रीमती रजनी शिपाई। एम—67 तीसरी मंजिल सिंगी गार्डन नई दिल्ली—110018
कच्चे की तारीख: 20 मार्च—25

हिमांशु नोटिटर की तारीख 28 दिसंबर—24 और 28 दिसंबर—24 तक र. 3,11,650/-
संपत्ति का विवरण: मकान 12/48—बी ब्लॉक—12 दूसरी मंजिल बिना छत के प्रीहोल्ड बिल्ड अप रैलिफे 100 वर्ग गज पना वाला तिखत नगर नई दिल्ली—110048 में स्थित है।

लेन: DL/SDR/SDRA/A000001131 और CO/CP/CPF/A000003778
1. श्री सुखल सिंह नागा श्री सुमन सिंह श्रीमती विजया किरन मकान संख्या—4370 अर्ग पुरा सब्जी मंडी पश्चात राई दिल्ली 110007 कच्चे की तारीख: 20 मार्च 25
हिमांशु नोटिटर की तारीख 28 दिसंबर 24 और 19 दिसंबर 24 तक 22,68,258 रुपये

संपत्ति का विवरण: ऊपरी मूल, बिना छत के अधिकार के संपत्ति संख्या 4612 वार्ड संख्या XII, 60 वर्ग गज का क्षेत्रफल वगैरा पुरा सब्जी मंडी नवी अयोली चेंबूरट अस्पताल दिल्ली—110007, सब्जी मंडी अयोली चेंबूरट अस्पताल दिल्ली 110007, पूर्व अन्ध पश्चिम अन्ध उत्तर-पश्चिम दक्षिण: वार्ड संख्या 20

लेन: DL/JNV/JNKP/A000000351 1. श्री मोहित कुमार शर्मा 5 2. श्रीमती उषा देवी। मकान संख्या—184 तृतीय तल, गली संख्या—03, मंगारोली, दिल्ली 110092।
कच्चे की तिथि: 20 मार्च 25

हिमांशु नोटिटर तिथि 09 दिसंबर 24 और 07 दिसंबर 24 तक र.12,90,628/-
संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर संख्या सी 911, अंति मंजिल, एच आर पना वाला टाटा 4/3 कारपोर एच (रें) 541.10 फीट चौक, ब्लॉक—बी में परियोजना विवेक विश्वे आवासीय विकास (पूरे) का संपत्ति के रूप में जाना जाता है, गोविंद पुरा उत्तर एक्स्टेंशन जटन निमग रोड, पुरन—24, गाजियाबाद, एच के पास स्थित है।

लेन: DL/TLK/THR/A000000221, 1. श्री निरंतर कुमार 2. श्रीमती टीया श्रीमती मीना। मकान संख्या— 302 सुखनपुर उत्तर पश्चिम दिल्ली—110038
कच्चे की तारीख: 21 मार्च—25

मांग नोटिटर की तारीख 09 दिसंबर 24 और 07 दिसंबर—24 को 15,15,396 रुपये।
संपत्ति का विवरण : मकान संख्या— 302 (उत्त के अधिकारों के साथ) वाली 125 वर्ग गज भूमि पर

SYNISE TENDER SALE BOSCH LTD, BIDADI PLANT Material Description : Factory Waste-80MT, Scrap Wood-40MT, MS Fabrication & Misc-40MT, Aluminium & MS Chips-60MT, Scrap Aluminium Castings (De-Faced)-20MT Used oil-300 Barrels, Scrap MS Components-60MT, 2nd Grade Skimmed Oil-300 Barrels, Scrap Plastic & Rubber-40 MT, Used Isophor & MTO-200 MT, Scrap Empty M S barrels -300, Scrap Empty Plastic barrels-200 (For KSPCB Certificate Holders only)

PUBLIC NOTICE Notice is given on behalf of our Clients Mrs. Ann-Maria Redman (née: Fertnig) and Mr. Claude Mario Savio Fertnig that our Clients are the only executors of the Will of the Late Mrs. Daphne Iris Tuffin, the rightful owner of the property situated at No. 366, Ramagondanahalli PO White Field, Bengaluru 560 066, India, SY No. 119 (Old Sy No. 106) more particularly described in the schedule hereunder ('Property').

SCHEDULE OF PROPERTY: DESCRIPTION OF THE SAID PROPERTY All that piece and parcel of property known as The Rising Sun Farm (earlier known as Nirmala Estate) comprising of farmhouse, out building sheds, fixtures and fittings, in 5 acres 5 guntas of dry agricultural land in, SY No. 119 (Old Sy No. 106) situated at Ramagondanahalli, Bengaluru East Taluk (erstwhile Bangalore South Taluk) and bounded by: To the East: Property of Laughing Water Housing Society To the West: Bengaluru White Field Road To the North: Property of Brig, Naidu To the South: Property of Laughing Water Housing Society

ABHISHEK SHARMA (ADVOCATE) DENTONS LINK LEGAL Link Legal, Aivan-e-Ghalib Complex, Mata Sundari Ln, New Delhi, Delhi 110002 Phone Number: +91 1146511000. Email: abhishek.sharma@dentonslinklegal.com

POSSSESSION NOTICE (As per Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Authum Investment & Infrastructure Limited ('AILI') (Resulting Company pursuant to the demerger of lending business from Reliance Commercial Finance Limited ('RCFL') to AILI, vide NCLT order dated 10.05.2024), under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(2) and read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 17-01-2025 calling upon the borrower Mr. Hodigere Krishnamurthy & Co-borrowers Mrs. Sahana Ramesh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,01,21,040/- (Rupees Two crores one lakhs twenty one thousand forty only) under Loan Account No. RLLPBAN000204953 with further interest and costs within 60 days from the date of receipt of the said notices.

3M INDIA LIMITED CIN: L31300KA1987PLC013543 Website : www.3m.com/in, Mail id : investorhelpdesk.in@m3m.com Plot No. 48-51 Electronics City, Hosur Road, Bangalore - 560100 NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES The following Share Certificates of the Company have been reported as lost/misplaced and the holder of the said Share Certificate have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

SPACEVISION IMPEX PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) Office of the Liquidator: E-504, Ispatika Apartments, Plot-29, Sector-4, Dwarka, New Delhi -110078 E-mail : liq.spacevision@gmail.com | Tel No./ Mobile. No.: 9995678610. NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF ASSETS UNDER IBC, 2016 Date and time of E-Auction : Thursday, 24.04.2025 from 11.30 a.m. to 1.30 p.m. (with unlimited extension of 5 minutes each)

Table with columns: Type of Asset, Location / Address / Area, Reserve Price (INR), EMD (INR), Incremental Value (INR). Assets include Shop/Office premises bearing Municipal Sub No. 84/47 F4, situated on 5th Floor, Property No. 84 (Old No. 12), Jaya Chamarajendra Road, Bangalore.

Proclamation under order 5 Rule 20 CPC. Before the District Consumer Disputes Redressal Forum, Sangrur (Pb.). Complaint No. 212 Date of institution: 17-9-2024 Pending for: 25-4-2025 1. Rohit Garg S/o Sunil Kumar R/o Street No. 3, Rajwaha Road, Block-D, Guru Nanak Colony, Sangrur, District Sangrur Versus 1. Lets Go Holiday Pvt. Ltd., OPC No. 382, 3rd Floor, Ri con, Outer Ring Road, Bengaluru 560037 through its Managing Director/Authorized Signatory, OPPOSITE PARTIES

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. DEMAND NOTICE Regd: Off- 6th Floor, Plot-15, Sector-44, Institutional Area, Gurgaon, Haryana-122002 Branch Office- (Kalyani) Emerald, 3rd Floor, Daspande Nagar, (Near Kalyanpurkar Nursing Home), Hubli, Karnataka - 580031

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED Corporate Office: Cerebrum II Park B2 Building 5th Floor, Kajani Nagar, Pune, Maharashtra 411014. Branch Office: 2nd Floor, J.K Towers, 719/A-53-2, 46th Cross, Sangam Circle, Jayanagar 8th Block, Bangalore-560082.

POSSSESSION NOTICE U/s 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. (Appendix-IV) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of M/s BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED (BHFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice(s) to Borrower(s) / Co Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

3M INDIA LIMITED CIN: L31300KA1987PLC013543 Website : www.3m.com/in, Mail id : investorhelpdesk.in@m3m.com Plot No. 48-51 Electronics City, Hosur Road, Bangalore - 560100 NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES The following Share Certificates of the Company have been reported as lost/misplaced and the holder of the said Share Certificate have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

MANAPPURAM HOME FINANCE LIMITED FORMERLY MANAPPURAM HOME FINANCE PVT LTD CIN : U65923KL2010PLC039179 Unit 301-315, 3rd Floor, A wing, Kanakia Wall Street, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400093, Contact No. : 022-66194000/022-66211000.

MANAPPURAM HOME FINANCE LIMITED DEMAND NOTICE Whereas the Authorized Officer of Manappuram Home Finance Ltd., having our registered office at IV/470A (old) w/638A (new), Manappuram House, Valapad, Thiruvur, Kerala-680567 and branches at various places in India (hereinafter referred to as 'MAHOFIN') is a Company registered under the Companies Act, 1956 and a Financial Institution within the meaning of sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of Section 2 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the Act) read with Notification No. S.O. 3466 (E) dated 18th December, 2015 issued by the Govt. of India, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi, inter alia carrying on business of advancing loans for construction and / or purchase of dwelling units and whereas the Borrower / Co-Borrowers as mentioned in Column No. 2 of the below mentioned chart obtained loan from MAHOFIN and whereas MAHOFIN being the secured creditor under the SARFAESI Act, and in exercise of powers conferred under section 13(2) of the said Act read with Rule 2 of the security interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice calling upon the Borrowers / Co-Borrowers as mentioned herein below, to repay the amount mentioned in the notices with further interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served upon some of them for various reasons. That in addition thereto for the purposes of information of the said borrowers enumerated below, the said borrowers are being informed by way of this public notice.

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. DEMAND NOTICE Regd: Off- 6th Floor, Plot-15, Sector-44, Institutional Area, Gurgaon, Haryana-122002 Branch Office- (Vigneshwara Arcade, 1st Floor, 14th Cross, Sit Main Road, Near Bala Showroom, Tumkur-572102)



indianexpress.com I look at every side before taking a side. Inform your opinion with insightful perspectives. The Indian Express. For the Indian Intelligent. BENGALURU

